

पर्यावरणीय, स्वास्थ्य, सुरक्षा, और निरंतरता नीति

Allegion सभी लागू पर्यावरणीय, स्वास्थ्य और सुरक्षा कानूनों और विनियमों के अनुपालन में और ऐसे तरीके जो पूरे विश्व में हमारे पर्यावरण, सहयोगियों, ग्राहकों, ठेकेदारों और हमारे स्थानीय समुदायों के सदस्यों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देता हो और इसकी रक्षा करता हो, के अनुपालन में सुरक्षित, पर्यावरणीय रूप से ज़िम्मेदार और निरंतर तरीके से अपना व्यवसाय संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

Allegion निम्नलिखित सहित ऐसे सिद्धान्तों के साथ प्रचालन करती है जो हमारी पहले से सक्रिय प्रतिबद्धता को संबल देते हैं:

- उद्देश्यों और लक्ष्यों सहित हमारे व्यावसायिक कार्यों के सभी तत्वों में श्रेष्ठ पर्यावरणीय, स्वास्थ्य, सुरक्षा और निरंतरता कार्यनीतियों का एकीकरण;
- हमारी अनुपालन स्थिति का आवधिक, औपचारिक मूल्यांकन और उद्देश्यों और लक्ष्यों की वार्षिक समीक्षा आयोजित करना;
- यह विश्वास कि Allegion में प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार है;
 - हमारे प्रबंधकों और सुपरवाइज़रों से एक सुरक्षित, स्वस्थ और पर्यावरणीय रूप से अनुकूल कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए उदाहरण प्रस्तुत करके नेतृत्व करने की अपेक्षा की जाती है।
 - हमारे सहभागियों को उनके कार्यों से संबंधित पर्यावरणीय, स्वास्थ्य, सुरक्षा और निरंतरता मुद्दों को समझने का प्रशिक्षण दिया जाता है और उनसे इन्हें समझने की अपेक्षा की जाती है, और उन्हें असुरक्षित स्थितियों को रिपोर्ट करने का अधिकार दिया जाता है।
 - हमारे सहभागी समझते हैं कि उनकी स्वयं की, उनके सह-कामगारों और पर्यावरण की रक्षा करना उनकी ज़िम्मेदारी है। इसे कार्यक्रम विकास और/अथवा कार्यक्रम कार्यान्वयन के दौरान पर्यावरणीय, स्वास्थ्य, सुरक्षा और निरंतरता परामर्श और सहभागिता के माध्यम से किया जाता है।
- प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में कमी, बेकार सामग्री को न्यूनतम करना, प्रदूषण की रोकथाम और कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं, चोटों तथा जोखिमों की रोकथाम सहित पर्यावरणीय, स्वास्थ्य, सुरक्षा और निरंतरता प्रबंधन प्रणालियों और निष्पादन में लगातार सुधार करें;
- हमारी सुविधाओं को इस प्रकार डिजाइन करें, प्रचालित करें तथा रखरखाव करें जिससे नकारात्मक पर्यावरणीय, स्वास्थ्य, सुरक्षा और निरंतरता प्रभाव कम से कम हों;
- सामग्रियों का ज़िम्मेदारी से उपयोग जिसमें जहाँ व्यवहार्य हो, वहाँ सामग्रियों का पुनर्चक्रण और दोबारा उपयोग सम्मिलित है; और
- ऐसे तरीके से कार्रवाई करें जो पर्यावरणीय, स्वास्थ्य, सुरक्षा और निरंतरता संबंधी मुद्दों के बारे में संवेदनशीलता दर्शाता हो।

Allegion का यह मानना है कि ये सिद्धान्त भविष्य में हमारी सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं। एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में हम उन समुदायों में स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनमें हम अपने व्यवसाय का प्रचालन करते हैं।



डेविड (डेव) पेट्राटिस (David [Dave] Petratis)
चेयरमैन, अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी